



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 2005—जनवरी 21, 2005 (पौष 25, 1926)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 2005—JANUARY 21, 2005 (PAUSA 25, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices
of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

सं. ए-19014/10/2000-प्रशा.-1--पब्लिक पालिसी एण्ड मैनेजमेन्ट,
इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, हेग, नीदरलैंड्स में दिनांक 16.9.2003
से 15.12.2004 तक दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात् एम.बी.ए.
को पूरा हो जाने पर श्री मोहिन्दर सिंह, आई.डी.ए.एस. : 88 जो कि
वर्तमान में संयुक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (निदेशक स्तर) के
रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको आयोग के कार्यालय द्वारा 15
दिसम्बर, 2004 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है तथापि
श्री मोहिन्दर सिंह को 16 दिसम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक
16 दिन के लिए अर्जित अवकाश, कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक
20 मई, 1987 के का. जा. सं. 27(38)-ई.ओ./87(एसएम) की शर्तों
के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि अवकाश की समाप्ति पर वे अपने
मूल विभाग अर्थात् महानियंत्रक रक्षा लेखा, नई दिल्ली के कार्यालय में
इयूटी के लिए रिपोर्ट करें।

3. श्री मोहिन्दर सिंह आई डी ए एस (88) की केन्द्र में अपनी
अवधि की गणना 5 दिसम्बर, 2000 से की जाएगी।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

सं. 2/49/04-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग
में निजी सहायक श्री नत्थी राम को निजी सचिव के पद पर वेतनमान
रु. 6,500-200-10,500/- में स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर
दिनांक 24.12.2004 से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं. 2/2/04-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा कार्यालय, सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, कोलकाता के आशुलिपिक वर्ग-ख, श्री मोहम्मद तूफैल अहमद, को आयोग में निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 06.12.2004 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल

उप सचिव

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 दिसम्बर 2004

सं. 18/24/98-प्रशा.-II--पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (शस्त्र) के पद पर कार्यरत डॉ. एन. एस. पांडे, सहायक निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ की पांचवें वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि 31.3.2004 से 28.5.2004 तक के विस्तार हेतु गृह मंत्रालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन को एतद्वारा सूचित किया जाता है। अपने पांचवें वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि में वे किसी भी प्रकार के प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार नहीं होंगे। डॉ. एन. एस. पांडे, अब दिनांक 28.5.2004 (अपराह्न) से अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो गए हैं।

2. यह संघ लोक सेवा आयोग की सहमति तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 13.08.2004 के डायरी सं. 368/एम.ओ.एस.(जे)/2004 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-1/70--राष्ट्रपति, के.ओ.सुब के निम्नलिखित सहायक कमान्डेन्टों (कार्य/जे.ए.ओ.) की 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप कमान्डेन्ट के रैंक में नियुक्ति पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	उप कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	बी. एस. भारद्वाज	सीपीएस-1 खीरी/चम्पा	31.08.2004 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
2.	आर. के. राय	ओटीएसपीपी, ओबरा	01.11.2004 (पूर्वाह्न)
3.	पी. के. चटर्जी	डीएसपी, हुगपुर	13.09.2004 (पूर्वाह्न)
4.	विष्णु कोशिका	5वीं आ. वाहिनी, गाजियाबाद	30.08.2004 (अपराह्न)
5.	निहाल सिंह	बीएसएसपीपीपी, चम्पा	12.09.2004 (पूर्वाह्न)
6.	हरी चन्द	शिमला एयरपोर्ट	29.09.2004 (पूर्वाह्न)
7.	बी. सी. कलश्री	आरएसटीपीएस, रामागुन्डम	25.08.2004 (अपराह्न)
8.	सूर्य प्रकाश	गोहाटी एयरपोर्ट	06.09.2004 (अपराह्न)
9.	मंजीत सिंह	एचडब्ल्यूपी, मनुगुरु	20.09.2004 (पूर्वाह्न)
10.	रतन सिंह	आईटीआई, मनकापुर	09.09.2004 (पूर्वाह्न)
11.	एम. आर. भाले	आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली	25.08.2004 (पूर्वाह्न)
12.	पी. पी. सिंह	कोलकाता एयरपोर्ट	29.09.2004 (पूर्वाह्न)
13.	बी. आर. राय	सीपीटी, कोचीन	01.12.2004 (पूर्वाह्न)
14.	एस. एन. चंदा	बीएसपी, विशाखापटनम	23.09.2004 (पूर्वाह्न)
15.	अजीत सिंह	केपीटी, कांङला	17.09.2004 (पूर्वाह्न)
16.	आर. बी. सिंह	सीसीएस, करगली	01.09.2004 (पूर्वाह्न)
17.	एस. श्रीधरन	ओएनजीसी, नजीरा	25.08.2004 (पूर्वाह्न)
18.	वाई. बैक्टराम	के.ओपीटी, कोलकाता	21.09.2004 (अपराह्न)
19.	एम. डी. एसलम	8वीं आ. वाहिनी, किश्तवार	13.10.2004 (पूर्वाह्न)
20.	हरी ओम गांधी	मंगलौर एयरपोर्ट	25.08.2004 (पूर्वाह्न)
21.	अरुण सिंह	मुम्बई एयरपोर्ट	06.10.2004 (पूर्वाह्न)

ह/- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 28 दिसम्बर 2004

सं. ई-16015(2)/1/2002/कार्मिक-1/72--राष्ट्रपति, श्री एस. एन. एल. भटनागर, वरिष्ठ कमान्डेन्ट, को पदोन्नति पर के.ओ.सुब में

उप महानिरीक्षक के पद पर 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे के.ओ.सुब इकाई, सीसीएल करगली में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 25 नवम्बर 2004 के पूर्वाह्न से उप महानिरीक्षक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 1 जनवरी 2005

सं. 31/एस-4/12288--श्री पी. जी. भागवत, उप निर्यंत्रण अधिकारी (समूह "ख", राजपत्रित), चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड, सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कारण दिनांक 31.12.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अ. ना. इंगले
महाप्रबन्धक

दिनांक 3 जनवरी 2005

सं. 30/एस-ईएससी-1-10--श्री पी. डी. सोले, निरीक्षक निर्यंत्रण, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड को उप निर्यंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 13.12.2004 से 12.06.2005 तक अथवा निर्यंत्रण अधिकारी का पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी। उक्त पदोन्नति कोई भी कारण दर्शाए बिना समाप्त की जा सकती है।

अ. ना. इंगले
महाप्रबन्धक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं. ए-19018/1700/2004-प्रशा. (रा.)--राष्ट्रपति जी, श्री सत्यानन्द मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) (म.प्र. : 73) को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 20.12.2004 (पूर्वाह्न) से अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. बी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशासन)

कोयला और खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं. 2253सी/ए-19011(1-एम.बी.एम.)/04/19ए--सक्षम पदाधिकारी द्वारा सुश्री एम. बावनहुन मावथोह की जाति की स्थिति के सत्यापन के फलस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सुश्री एम. बावनहुन मावथोह की भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अधिसूचना संख्या 2601/बी/ए-19011(1-एम.बी.एम.)/04/19ए, दिनांक 22.09.2004 द्वारा की गई अनन्तिम नियुक्ति दिनांक 03.08.2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित अग्रिम आदेशों तक नियमित मानी जाती है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

(खान विभाग)
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं. ए-19012/322/95-स्था.ए--विभागीय पदोन्नति समिति, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के सिफारिश पर श्री ए. मिश्रा, सहायक प्रशासन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो जो प्रमाण एवं प्रायोगिक प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, चांदीपौर, बालासोर में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्रेणी-II के पद पर प्रतिनियुक्ति में हैं को भारतीय खान ब्यूरो में प्रशासन अधिकारी के पद पर दिनांक 16.11.2004 (पूर्वाह्न) से प्रपञ्च पदोन्नति प्रदान की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं. फा. ए-4-1/2001-स्था.-1--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय एतद्वारा श्रीमती सतिन्दर कौर चड्ढा, अधीक्षक को कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित के पद पर नियमित आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 30.12.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डॉ. शीतला प्रसाद
अभिलेख महानिदेशक (प्रभारी)

सं. फा. ए-4-1/2001-स्था.-1--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय

एतद्द्वारा श्री शान्ती सरकार, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित के पद पर नियमित आधार पर रु. 6,500- 200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 30.12.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डॉ. शीतला प्रसाद
अभिलेख महानिदेशक (प्रभारी)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं. एईसी-1(2)/04/24—राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन सम्बन्धी भारत सरकार के दिनांक 1 मार्च, 1958 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा., (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैराग्राफ 3 (ए) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

पैराग्राफ 3 (ए)

आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या तीन से कम और ग्यारह से अधिक नहीं होगी।

2. तदनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित सरकार के दिनांक 1 मार्च, 2004 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा. की एक प्रति इसके साथ प्रेषित है।

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन

दिनांक 01 मार्च 1958 का संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा.
(निम्नलिखित द्वारा यथा संशोधित)

दिनांक 06 मार्च, 1962 का संकल्प सं. डीई/सी-1-एच

दिनांक 24 जनवरी 1981 का संकल्प सं. 3(5)-81-एडमिन.-1

दिनांक 13 अक्टूबर 1983 का संकल्प सं. 3(5)-81-एडमिन.-1

दिनांक 20 मार्च 1984 का संकल्प सं. एईसी-1(2)/84

दिनांक 17 मार्च 1986 का संकल्प सं. 1 (2)/86

दिनांक 14 जून 2004 का नोट सं. एईसी-1(2)/04 एवं

दिनांक 27 दिसम्बर 2004 का नोट सं. एईसी-1(2)/04/24

परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई और तब से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से प्रगति हुई है और भविष्य के लिए एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के उपयोग हेतु आवश्यक सभी मूलभूत पदार्थों के उत्पादन में सक्षम बनाना तथा परमाणु बिजलीघरों की श्रृंखला का निर्माण करना है जो देश में विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि हेतु अपना योगदान देंगे। इन विकास कार्यों के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके पास गहन तकनीकी एवं आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित अपनी योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का पूर्ण अधिकार हो और जो सभी अनावश्यक प्रतिबन्धों या गैर लचीले नियमों

से मुक्त हो। ऐसे संगठन का निर्माण करते समय परमाणु ऊर्जा की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षेत्र की नवीनतम, उसकी गतिविधियों के सामरिक तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय एवं राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखना होगा।

2. गंभीरतापूर्वक विचार के पश्चात् भारत सरकार ने लगभग रेलवे बोर्ड के मॉडल पर आधारित पूर्ण कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियों-युक्त परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह आयोग, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में दिनांक 10 अगस्त 1948 की अधिसूचना सं. एफ-402/डीएसआर/48, जिसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है, के द्वारा स्थापित आयोग को प्रतिस्थापित करेगा।

3. आयोग का गठन :

(क) आयोग में पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक सदस्य होंगे और आयोग के कुल सदस्यों की संख्या तीन से कम एवं ग्यारह से अधिक नहीं होगी।

(ख) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव, आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ग) आयोग का एक सदस्य, सदस्य, वित्त होगा जो परमाणु ऊर्जा विभाग में वित्तीय मामलों में भारत सरकार का पदेन सचिव भी होगा।

4. कार्य :

परमाणु ऊर्जा आयोग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :—

(क) प्रधानमंत्री के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करना।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार करना एवं सरकार से इसे अनुमोदित कराना।

(ग) परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।

5. संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमा के अन्दर परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों को करने के लिए आयोग के पास भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों शक्तियां सन्निहित होंगी।

6. अध्यक्ष :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से अध्यक्ष, तकनीकी मामलों में निर्णय लेने तथा परमाणु नीति से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के अधीन उत्तरदायी होंगे नीतिगत एवं सम्बन्धित मामलों में आयोग की सभी सिफारिशें अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) अध्यक्ष को आयोग के अन्य सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, सिवाय सदस्य, वित्त के, जिन्हें किसी भी वित्तीय मामले, जिसमें वे अध्यक्ष से सहमत नहीं हैं, को प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को भेजने हेतु मांग करने का अधिकार होगा।

(ग) अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयानुसार आयोग के किसी भी सदस्य को समय-समय पर जारी सामान्य या विशिष्ट आदेशों के तहत अपनी ओर से शक्तियां एवं दायित्वों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

7. सदस्य, वित्त :

सदस्य, वित्त परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित वित्तीय मामलों में भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे सिवाय उन शक्तियों के जो विभाग के पास निहित हैं या भविष्य में विभाग को प्रदान या प्रत्यायोजित की जाएंगी।

8. आयोग के पास अपनी कार्यविधि से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति होगी। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयों एवं संस्थानों पर आयोग की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

मुम्बई-400001, दिनांक 28 दिसम्बर 2004

सं. 6(2387)/2004-प्रशा./9169--राष्ट्रपति, श्री एस. के. जाना, (आईसीएस : 1979) को दिनांक 15 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2004

सं. 27/169/88-मु.वा.(न.दि.क्षे.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ वास्तुक, श्री एस. सी. मेशराम को दिनांक 30.11.2004 के अपराह्न से भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

ए. के. त्यागी
संपर्क अधिकारी, मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नार्थ लिंक स्टील लिमिटेड
के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/23305/1535--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती

है कि मैसर्स नार्थ लिंक स्टील लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जनक प्रोसेसर लिमिटेड
के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/21091/1536--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जनक प्रोसेसर लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विशाल टैक्स-फैब प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/21216/1537--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विशाल टैक्स-फैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दुर्गा दास वूलन प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/23089/1538--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स दुर्गा दास वूलन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डायमण्ड वीविंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/23217/1539--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स डायमण्ड वीविंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोहिनूर मल्टीलैबल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/24939/1540--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोहिनूर मल्टीलैबल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोवर्स फारमा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/20566/1541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोवर्स फारमा प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रामीण एग्रो फारेस्ट्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/21108/1542--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती

है कि मैसर्स ग्रामीण एग्रो फारेस्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. पी. जी. एजी टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/25500/1543--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. पी. जी. एजी टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऊषा स्पाइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(5)/21072/1544--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऊषा स्पाइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बागड़ा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/4864/1851--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स बागड़ा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. एस. प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/4036/1855--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स पी. एस. प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारू क्लब प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं. आर.ओ.सी./560/18045/1683--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स मारू क्लब प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याणी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

बेंगलूर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(3)/7736/एस. सं./2004-2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कल्याणी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूना ट्रेडिंग लिमिटेड के सम्बन्ध में।

बेंगलूर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

सं. 560(3)/4395/एस. सं./2004-2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पूना ट्रेडिंग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110059, the 14th December 2004

No. A-19014/10/2000-Admn.-I.—On completion of a long term training course, viz. MA in Public Policy and Management at the Institute of Social Studies, Hague, Netherlands from 16.09.2003 to 15.12.2004, Shri Mohinder Singh, IDAS : 88, presently on central deputation as Joint Secretary, UPSC (Director Level) stands relieved of his duties in the Commission's Office w.e.f. the afternoon of 15th December, 2004. Shri Mohinder Singh has however, been sanctioned Earned Leave for 16 days w.e.f. 16th December, 2004 to 31st December, 2004 in terms of DOP & Trg. O.M. No. 27(38)-EO/87 (SM) dated 20th May, 1987.

2. On expiry of his leave, Shri Mohinder Singh is directed to report for duty in his parent department, viz. Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi.

3. Shri Mohinder Singh, IDAS (88) counts his tenure at centre w.e.f. 5th December, 2000.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 29th December 2004

No. 2/49/04-Admn./2546.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Nathi Ram, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary in the Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in officiating capacity with effect from 24.12.2004 (F.N.) on regular basis, until further orders.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

The 30th December 2004

No. 2/2/04-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Md. Tufail Ahmed, Stenographer Grade-II, Office of GEQD, Kolkata, as Private Secretary in the Commission on deputation basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 6th December, 2004 for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 28th December 2004

No. 18/24/98-Admn.-II.—Approval of the MHA and concurrence of UPSC is hereby conveyed to the extension of the deputation period of Dr. N. S. Pandey, Assistant Director, Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh in the post of Senior Scientific Officer (Weapons) in the Bureau of Police Research & Development, New Delhi for the 5th year with effect from 31.3.2004 to 28.5.2004. He will not be entitled to draw any deputation allowance during the 5th year of his deputation period. Dr. Pandey has since been repatriated with effect from 28.5.2004 (A.N.) to his parent department.

2. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 368/MOS(J)/2004 dated 13.8.2004 and concurrence of the Union Public Service Commission.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 21st December 2004

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.-I/70.—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants (Exe./JAO) on regular promotion to the rank of Deputy Commandant in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Commandant on regular basis
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	B. S. Bhardwaj	CPS-I Khairi, Chamba	31.08.2004 (F.N.)
2.	R. K. Ray	OTHPP, Obra	01.11.2004 (F.N.)
3.	P. K. Chatterjee	DSP, Durgapur	13.09.2004 (F.N.)
4.	Vishnu Kaushish	5th Res. Bn., Ghaziabad	30.08.2004 (A.N.)
5.	Nihal Singh	BSHEPP, Chamba	12.09.2004 (F.N.)
6.	Hari Chand	Shimla Airport	29.09.2004 (F.N.)
7.	B. C. Kalsi	RSTPS, Ramagundam	25.08.2004 (A.N.)
8.	Surya Prakash	Guwahati Airport	06.09.2004 (A.N.)
9.	Manjit Singh	HWP, Manuguru	20.09.2004 (F.N.)
10.	Ratan Singh	ITI, Mankapur	09.09.2004 (F.N.)
11.	M. R. Bhale	IGI Airport, Delhi	25.08.2004 (F.N.)
12.	P. P. Singh	Kolkata Airport	29.09.2004 (F.N.)

1	2	3	4
	S/Shri		
13.	B. R. Roy	CPT, Cochin	01.12.2004 (F.N.)
14.	S. N. Chanda	VSP Visakhapatnam	23.09.2004 (F.N.)
15.	Ajit Singh	KPT, Kandla	17.09.2004 (F.N.)
16.	R. B. Singh	CCL, Kargali	01.09.2004 (F.N.)
17.	S. Sridharan	ONGC, Nazira	25.08.2004 (F.N.)
18.	Y. Venkatram	KoPT, Kolkata	21.09.2004 (A.N.)
19.	Md. Aslam	8th Res. Bn., Kistwar	13.10.2004 (F.N.)
20.	Hari Om Gandhi	Mangalore Airport	25.08.2004 (F.N.)
21.	Arun Singh	Mumbai Airport	06.10.2004 (F.N.)

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 28th December 2004

No. E-16015/(2)/1/2002/Pers.-I/72.—The President is pleased to appoint Shri S. N. L. Bhatnagar, Senior Commandant to the rank of Dy. Inspector General in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/-. He is posted at CISF Unit CCL Kargali, where he assumed the charge of Dy. Inspector General in the forenoon of 25th November 2004.

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
CURRENCY NOTE PRESS

Nashik Road, the 1st January 2005

No. 31/S-4/12288.—Shri P. G. Bhagwat, Dy. Control Officer (Group 'B', Gazetted), Currency Note Press, Nashik Road has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2004 (A.N.).

A. N. INGLE
General Manager

The 3rd January 2005

No. 30S/ESC-1-10.—Shri P. D. Sole, Inspector Control, Currency Note Press, Nashik-Road is hereby promoted as Dy. Control Officer (Group 'B', Gazetted), purely on adhoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 13.12.2004 to 12.06.2005 or till the post of Control Officer is filled, whichever is earlier.

The above adhoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the adhoc

service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion. The above adhoc promotion is also liable for termination without assigning any reasons.

A. N. INGLE
General Manager

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 24th December 2004

No. A-19018/1700/2004-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Satyananda Mishra, IAS (MP : 73) as Additional Secretary & Development Commissioner (Small Scale Industries) in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi with effect from the forenoon of 20.12.2004.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 27th December 2004

No. 2253C/A-19011(1-MBM)/04/19A.—Consequent upon verification of caste status of Ms. M. Bawanhun Mawthoh by the Competent Authority, the Provisional appointment in respect of Ms. M. Bawanhun Mawthoh in the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India at the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- vide Notification No. 2601/B/A-19011(1-MBM)/04/19A dated 22.09.2004 stands regularized w.e.f. the forenoon of 03.08.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 24th December 2004

No. A-19012/322/2000-Estt.-A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Union Public Service Commission, New Delhi, Shri A. Mishra, Assistant Administrative Officer, Indian Bureau of Mines on deputation as Sr. Admn. Officer Grade II in Proof & Experimental Establishment, Defence R & D Organisation, Chandipur, Balasore, has been granted pro-forma promotion to the post of Administrative Officer in Indian Bureau of Mines w.e.f. 16.11.2004 (F.N.).

S. K. BATAV
Sr. Admn. Officer
for Controller General

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th December 2004

No. F.A.4-1/2001-Estt.-I.—On the recommendation of the D.P.C., the Director General of Archives, Government of India, Ministry of Culture hereby appoints Smt. Satinder Kaur Chadha, Superintendent, to the post of Junior Administrative Officer Group 'B' Gazetted on regular basis w.e.f. 30.12.2004 (F.N.) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the National Archives of India until further orders.

Dr. SHITLA PRASAD
Director General of Archives (I/c)

No. F.A.4-1/2001-Estt.-I.—On the recommendation of the D.P.C., the Director General of Archives, Government of India, Ministry of Culture hereby appoints Shri Santi Sarkar, Library & Information Assistant to the post of Assistant Library & Information Officer, Group 'B' Gazetted on regular basis w.e.f. 30.12.2004 (F.N.) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the National Archives of India until further orders.

Dr. SHITLA PRASAD
Director General of Archives (I/c)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 27th December 2004

No. AEC-1(2)/04/24.—The President is pleased to decide that paragraph 3(a) of the Government of India Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 1958 (as amended from time to time) constituting the Atomic Energy Commission be amended to read as follows :—

Paragraph 3 (a)

The Commission shall consist of full time and part time members and the total number of members shall not be less than three and not more than eleven.

2. Accordingly, a copy of the Government Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 2004, as amended from time to time, is being forwarded herewith.

K. MURALIDHAR
Secy. to the Atomic Energy Commission

CONSTITUTION OF THE ATOMIC ENERGY COMMISSION

Resolution No. 13/7/58-Adm. of March 1, 1958, as amended by Note Nos. DAE/C-1-H dt. March 6, 1962, 3(5)/81-Admn. I dt. January 24, 1981, 3(5)/81-Admn. I dt. October 13, 1983, AEC-1(2)/84 dt. March 20, 1984, ASEC-

1(2)/86 dt. March 17, 1986, Note No. AEC-1(2)/04 dated June 14, 2004 and AEC-1(2)/04/24 dated December 27, 2004 :

The Department of Atomic Energy was established in August, 1954 and since then research and development in the peaceful uses of atomic energy have made important and rapid strides and a greatly expanded programme is envisaged for the future, in the course of which India should be able to produce all the basic materials required for the utilisation of atomic energy and build a series of atomic power stations, which will contribute increasingly to the production of electric power in the country. These developments call for an organisation with full authority to plan and implement the various measures on sound technical and economic principles and free from all non-essential restrictions or needlessly inelastic rules. The special requirements of atomic energy, the newness of the field, the strategic nature of its activities and its international and political significance have to be borne in mind in devising such an organisation.

2. After careful consideration, the Government of India have decided to establish an Atomic Energy Commission with full executive and financial powers, modelled, more or less, on the lines of the Railway Board. This commission will replace the Commission set up in the late Department of Scientific Research Notification No. F-402/DSR/48, dated 10th August, 1948, which is hereby cancelled.

3. CONSTITUTION OF THE COMMISSION

- (a) The Commission shall consist of full-time and part-time members and the total number of members shall not be less than three and not more than eleven.
- (b) The Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be the ex-officio Chairman of the Commission.
- (c) A member of the Commission shall be the Member for Finance, who shall also be ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy in financial matters.

4. FUNCTIONS

The Atomic Energy Commission shall be responsible :

- (a) for formulating the policy of the Department of Atomic Energy for the consideration and approval of the Prime Minister;
- (b) for preparing the budget of the Department of Atomic Energy for each financial year and getting it approved by Government; and
- (c) for the implementation of Government's policy in all matters concerning atomic energy.

5. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of

the Government of India, both administrative and financial, for carrying out the work of the Department of Atomic Energy.

6. CHAIRMAN

- (a) The Chairman in his capacity as Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be responsible under the Prime Minister for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of atomic policy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.
- (b) The Chairman shall have the power to overrule the other members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.
- (c) The Chairman may authorise any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

7. MEMBER FOR FINANCE

The Member for Finance shall exercise the powers of the Government of India in financial matters concerning the Department of Atomic Energy except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Department.

8. The Commission shall have power to frame its own rules of procedure. The Commission shall meet at such times and places as may be fixed by the Chairman.

Mumbai-400001, the 28th December 2004

No. 6(2387)/2004/Adm/9169.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Jana (ICAS : 1979) as Chief Controller of Accounts in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of December 15, 2004, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS
OFFICE OF THE CHIEF ARCHITECT (NDR)
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 6th December 2004

No. 27/169/88-CA(NDR).—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri S. C. Meshram,

Senior Architect, Central Public Works Department, New Delhi retires from Government Service with effect from the afternoon of 30.11.2004.

A. K. TYAGI
Liaison Officer to CA (NDR)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Northlink Steels Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/23305/1535.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Northlink Steels Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janak Processors Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/21091/1536.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Janak Processors Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishal Tex-Fab Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/21216/1537.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishal Tex-Fab Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Durga Dass Woollen Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/23089/1538.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Durga Dass Woollen Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diamond Weaving Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/23217/1539.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Diamond Weaving Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kohinoor Multilevel Marketing Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/24939/1540.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kohinoor Multilevel Marketing Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rovers Pharma Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/20566/1541.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rovers Pharma Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gramin Agro Forest Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/21108/1542.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gramin Agro Forest Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. G. P. G. AG Tools Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/25500/1543.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. P. G. AG Tools Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Usha Spices Private Limited

Jalandhar City-144003, the 21st December 2004

No. ROC/560(5)/21072/1544.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Usha Spices Private Limited has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bagada Granites Private Limited

Jaipur, the 27th December 2004

No. ROC/560/4864/1851.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof, the name of M/s. Bagada Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P. S. Products Private Limited

Jaipur, the 27th December 2004

No. ROC/560/4036/1855.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof, the name of M/s. P. S. Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maru Club Private Limited

Jaipur, the 30th December 2004

No. ROC/JPR/560/18045/1683.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof, the name of M/s. Maru Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyani Holdings Private Limited

Bangalore-560034, the 21st December 2004

No. TA/SVK/560(3)/7736/2004-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kalyani Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. A. M. P. RATHNASAMI
Dy. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Trading Limited

Bangalore-560034, the 21st December 2004

No. TA/SVK/560(3)/4395/2004-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Poona Trading Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. A. M. P. RATHNASAMI
Dy. Registrar of Companies
Karnataka